

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 258]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1973/आषाढ़ 25, 1895

No. 258]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1973/ASADHA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

New Delhi, the 15th July, 1973.

S.O. 395(E).—Whereas I, F.G.T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of the Controller under the said order :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. G.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Food, No. S.O. 311(E) dated the 31st May, 1973, I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the maximum prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specified below, with effect from the 16th July, 1973 as follows :

		ZONE 'A'			ZONE 'B'		
		Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (other than the districts/areas specified in zone 'B') Chandigarh and Delhi.			Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, the district of Almora, Chamoli Garhwal, Pithoragarh, Tehri Garhwal and Uttarakashi and the hilly areas of the districts of Dehra Dun and Nainital, in Uttar Pradesh.		
		By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a)	In tin containers (Net capacity, in kilograms)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	16.5	118.67	125.84	127.49	121.04	128.33	129.98
	15.0*	108.36	114.91	116.41	110.52	117.18	118.68
	4.0	30.74	32.58	32.98	31.32	33.19	33.56
	2.0	15.86	16.80	17.00	16.14	17.10	17.30
(b)	In high-density polythene containers (Net capacity, in kilograms)						
	2.0	15.70	16.63	16.83	15.98	16.93	17.13
	1.0	8.27	8.76	8.86	8.41	8.91	9.01
(c)	In returnable galvanised-steel drums Per kilogram, net						
	(i) Aerated* . . .	7.14	7.58	..	7.29	7.73	..
	(ii) Non-aerated . . .	7.12	7.56	..	7.27	7.71	..
(d)	Loose, in small quantities Per kilogram, net	..	..	7.71	..	..	7.86
		ZONE 'C'			ZONE 'D'		
		Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy and Amini-divi Islands and Pondicherry.			Bihar, Orissa and West Bengal.		
		By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a)	In tin containers (Net capacity, in kilograms)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	16.5	116.08	123.12	124.77	119.04	126.23	127.88
	15.0*	106.00	112.44	113.94	108.70	115.27	116.77
	4.0	30.12	31.92	32.32	30.84	32.68	33.08
	2.0	15.54	16.47	16.67	15.90	16.84	17.04

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a) <i>In high-density polythene containers</i> (Net capacity, in kilograms)						
2.0	15.38	16.30	16.50	15.73	16.67	16.87
1.0	8.10	8.59	8.69	8.29	8.78	8.88
b) <i>In returnable galvanised - steel drums</i> Per kilogram, net						
(i) Aerated*	6.98	7.41	..	7.16	7.60	..
(ii) Non-aerated	6.96	7.39	..	7.14	7.58	..
i) <i>Loose, in small quantities</i> Per kilogram, net	..	..	7.54	..	..	7.73

ZONE 'B'

ZONE 'F'

Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram.

Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli and Goa, Damau and Diu.

By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)	By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)
----------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a) <i>In tin containers</i> (Net capacity in kilograms)						
16.5	120.80	128.08	129.73	117.55	124.66	126.31
15.0*	110.30	116.95	118.45	107.33	113.83	115.33
4.0	31.27	33.13	33.53	30.48	32.30	32.70
2.0	16.11	17.07	17.27	15.71	16.65	16.85
b) <i>In high-density polythene containers</i> (Net capacity, in kilograms)						
2.0	15.95	16.90	17.10	15.55	16.48	16.68
1.0	8.39	8.89	8.99	8.19	8.68	8.79
c) <i>In returnable galvanised-steel drums</i> Per kilogram, net						
(i) Aerated*	7.27	7.71	..	7.07	7.50	..
(ii) Non-aerated	7.25	7.69	..	7.05	7.48	..
(d) <i>Loose, in small quantities</i> Per kilogram, net	..	..	7.84	..	..	7.64

- NOTE :—
- (1) (*) Aerated quality—manufactured under special permission.
 - (2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and other local taxes.
 - (3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation.—In this notification

- "retailer" means a dealer who sells not more than 16.5 kgs. of vegetable oil products to anyone consumer at a time.
- "Wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product
 - to a retailer in any quantity, or
 - to a consumer exceeding 16.5 kgs. at a time.

[No. 12-2/73-C & P.]
F.G.T. Menezes,
Director (Vanaspati)

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1973

का० आ०. 395(अ).—यम: मैं, एक० जी० टी० मैनेजिज, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त आदेश की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया हूँ।

अतः अब भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 882 तारीख 24 सितम्बर, 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947, के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 311 (ई) तारीख 31 मई 1973 को अधिकृत करते हुए, मैं एतद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण सहमति से, अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 16 जुलाई 1973 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्न-लिखित रूप से नियत करता हूँ:—

जोन 'क'	जोन 'ख'
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (जोन "ख" में दिये गए जिलों तथा क्षेत्रों के अतिरिक्त), चंडीगढ़ और दिल्ली।	हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा, चमौली, गढ़वाल, पिथौरा गढ़, टेरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिले, तथा देहरादून और नैनीताल जिलों के पर्वतीय क्षेत्र।

उत्पादक द्वारा (रु०)	थोक-विक्रेता द्वारा (रु०)	फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०)	उत्पादक द्वारा (रु०)	थोक विक्रेता द्वारा (रु०)	फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(क) टिन के आवालों में
(किलोग्रामों में)

शुद्ध धारिता)

16.5	118.67	125.84	127.49	121.04	128.33	129.98
15.0*	108.36	114.91	116.41	110.52	117.18	118.68
4.0	30.74	32.58	32.98	31.32	33.19	33.59
2.0	15.86	16.80	17.00	16.14	17.10	17.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आधानों में

(किलोग्रामों में
शुद्ध धारिता)

2.0	15 70	16.63	16.83	15.98	16.93	17.13
1.0	8.27	8.76	8.86	8.41	8.91	9.01

(ग) लौटाए जाने योग्य अस्तेदार इस्पात के ड्रमों में

प्रति किलोग्राम,
शुद्ध

(i) वातित	7.14	7.58	—	7.29	7.73	—
(ii) अवातित	7.12	7.56	—	7.27	7.71	—

(घ) लुसा थोडी मात्रा में

प्रति किलोग्राम,
शुद्ध

—	—	7.71	—	—	7.86
---	---	------	---	---	------

जोन 'ग'

जोन 'घ'

आन्ध्रप्रदेश, केरल, मैसूर, तमिलनाडु, लंका-
दीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप
समूह और पाडिचेरी ।

उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(क) टिन के आधानों में

(किलोग्रामों में
शुद्ध धारिता)

16.5	116.08	123.12	124.77	119.04	126.23	127.88
15.0*	106.00	112.44	113.94	108.70	115.27	116.77
4.0	30.12	31.92	32.32	30.84	32.68	33.08
2.0	15.54	16.47	16.67	15.90	16.84	17.04

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख) उच्च घनत्व के पालीथीन के घासानों में (किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)						
2.0	15.38	16.30	16.50	15.73	16.67	16.87
1.0	8.10	8.59	8.69	8.29	8.78	8.88
(ग) लौहाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलो ग्राम, शुद्ध						
(i) वातित	6.98	7.41	—	7.16	7.60	—
(ii) अवातित	6.96	7.39	—	7.14	7.58	—
(घ) झुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम, शुद्ध						
	—	—	7.54	—	—	7.73

जोन 'ड'

जोन 'च'

असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अण्डमान गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दावरा
तथा निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, और नगर हवेली तथा गोवा, दमन
मणिपुर तथा मिजोराम । और दीव ।

उत्पादक द्वारा	थोक- विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक- विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(क) टिन के घासानों में
(किलो ग्रामों में
(शुद्ध धारिता)

16.5	120.80	128.08	129.73	117.55	124.66	126.31
15.0	110.30	116.95	118.45	107.33	113.83	115.33
4.0	31.27	33.13	33.53	30.48	32.30	32.70
2.0	16.11	17.07	17.27	15.71	16.65	16.85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख) उच्च बनस्प के पालीथीन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)					
2.0	15.95	16.90	17.10	15.55	16.48
1.0	8.39	8.89	8.99	8.19	8.68
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
(i) वातित	7.27	7.71	—	7.07	7.50
(ii) अवातित	7.25	7.69	—	7.05	7.48
(घ) खुला थोड़ी मात्ता में, प्रति किलोग्राम शुद्ध					
—	—	7.84	—	—	7.64

टिप्पणी.—(1) (*) वातित क्वालिटी—विशेष अनुशा के अधीन विनिमित ।

(2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में दुलाई सम्मिलित है किन्तु उन में उत्पाद शुल्क, विक्रय-कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

(3) थोक विक्रेता द्वारा और फुट कर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में दुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं किन्तु विक्रय कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण.—(i) फुट कर विक्रेता से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय नहीं करता है ।

(ii) "थोक विक्रेता" से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो,

(क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्ता में, या

(ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/ 72-सी० तथा पी०]

(एफ० जी० टी० मैनेजिज,

निदेशक (वनस्पति) ।

